



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 5—मार्च 11, 2006, शनिवार/फाल्गुन 14—फाल्गुन 20, 1927
No. 10] NEW DELHI, MARCH 5—MARCH 11, 2006, SATURDAY/PHALGUNA 14—PHALGUNA 20, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(समन्वय निदेशालय)

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2006

सा. का. नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली वर्ग 3 नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) लेखाकार भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची में क्रम संख्या 1 पर लेखाकार और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद गैर-चयन पद	क्या जोड़े गए सेवा के वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है।
1	2	3	4	5	6
लेखाकार	01*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', गैर-राजपत्रित, अनुसचिवीय	रु० 5500-175- 9000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए आयु सीमाएं	सीधे भर्ती के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की विधि : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई है तो इस ग्रेड का उल्लेख करें जिसमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।

11	12
मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति/आमेलन	मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति/आमेलन)
	प्रतिनियुक्ति :—
	1. केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो :
	क. (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक जो नियमित आधार पर पद धारित करते हैं : या
	(ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा
	(iii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रोकड़ लेखा और बजट कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो।
	जिसके न होने पर
	ख. केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे अधिकारी
	(क) (i) मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण करते हैं; या
	(ii) मूल कांडर/विभाग में रु. 5000—8000 या समतुल्य वेतनमान में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा कर चुके हैं, या
	(iii) मूल कांडर/विभाग में रु. 4500—7000 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष सेवा कर चुके हैं, या

12

(iii) मूल काडर/विभाग में रु. 4000—6000 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा कर चुके हैं।

तथा

(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण प्रबन्ध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा कार्य करने का 4 वर्ष का अनुभव हो, अथवा

जिन्होंने एस.ए.एस. या केन्द्र सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा पास कर ली हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या अन्य केन्द्रीय सरकार के संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है

वह परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली जानी है।

13

14

लागू नहीं होता

अधिकारी यदि आमेलन आधारित चयन प्रक्रिया में हो अथवा भर्ती नियमों के संशोधन/शिथिलीकरण या किसी अन्य व्यवस्था हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[मि.सं. ए. 11016/2/एएओ/2002-प्रशा. II/पीएम. II]

रमन मेहरा, अवर सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Directorate of Co-ordination)

(Police Wireless)

New Delhi, the 28th February, 2006

G. S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Class III posts [Directorate of Co-ordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Class III posts [Directorate of Co-ordination (Police Wireless)] Recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule, for serial number 1 relating to the post of Accountant and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification.	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Accountant	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5500-175-9000.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
11	12	
Deputation or Absorption	Deputation or Absorption	
	<p>A. (a) (i) Assistants of Central Secretariat Service holding the post on regular basis; Or</p> <p>(ii) Upper division clerks of Central Secretariat Clerical service with eight years' regular service in the grade; and</p> <p>(iii) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute for Secretariat Training and management or equivalent and possess three years' experience of cash, accounts and budget work;</p> <p>failing which</p> <p>B. Officers of the Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre or department ; or</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 4500—7000 or equivalent in the parent cadre or department ; or</p> <p>(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4000—6000 or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) who have undergone training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three years' experience of Cash, Accounts and Budget Work.</p>	
	Or	
	<p>A pass in sub-ordinate Accounts Services or equivalent examination conducted by any of the organised accounts department or the Central Government.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	

If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

Not applicable

14

Consultation with Union Public Service Commission necessary when an officer is in the field of selection for consideration on absorption basis and while amending/relaxing any provision of these recruitment rules.

[No. A. 11016/2/AAO/2002-Ad. II/PM. II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सहायक लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) सहायक लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतनमान वह होगा/वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद गैर चयन पद	जोड़े गए सेवा के वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है।
1	2	3	4	5	6
सहायक लेखा अधिकारी	01*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	रु० 6500-200- 10500	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

513GI/06-2

सीधे भर्ती के लिए आयु सीमाएं	सीधे भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
------------------------------	---	---	-------------------------------

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की विधि : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशत

यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा दी गई है तो इस ग्रेड का उल्लेख करें जिसमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।

11	12
----	----

मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति/आमेलन

मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति तथा पदोन्नति)

प्रतिनियुक्ति

1. केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किए हुए; या

(ii) मूल काडर/विभाग में रु. 5500—9000 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं, तथा

(ख) निम्नलिखित में से कोई अर्हता रखते हैं :

(i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा स्वचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हों।

(ii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रोकड़ लेखा और बजट कार्य का 4 वर्ष का अनुभव हो।

2. वे विभागीय लेखाकार जो 5500—9000 वेतनमान के संबंधित ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं उन पर भी बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि किसी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उन्हें पदोन्नति आधार पर भरा हुआ माना जाएगा।

(विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाईन में हैं प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे इसी तरह प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या अन्य केन्द्रीय सरकार के संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है?

वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली जानी है।

13	14
लागू नहीं होता	पद को भरने या भर्ती नियमों के संशोधन/शिथिलीकरण या किसी अन्य व्यवस्था हेतु परामर्श जरूरी है।

[सं. ए. 11016/2/एएओ/2002-प्रशा. II/पीएम. II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2006

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Accounts Officer in the Office of Directorate of Coordination (Police Wireless), Ministry of Home Affairs, New Delhi, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination Police Wireless, Assistant Accounts Officers, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Method of recruitment, age limit, disqualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, on being satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification.	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limits for direct Recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Accounts Officer	1(*) (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Rs. 6500-200-10500.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any		
8		9		10		
Not applicable		Not applicable		Not applicable		

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

11	12
Composite Method (Deputation plus Promotion)	<p>Composite Method (Deputation plus Promotion)</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government :—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre ; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/Department ; and</p> <p>(b) Possessing anyone of the following qualifications :—</p> <p>(i) a pass in the Sub-ordinate Accounts Services or equivalent examination conducted by any one of the Organised Accounts Departments of the Central Government; or</p> <p>(ii) successful completion of training in the Cash and Accounts Work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and four years' experience in Cash, Accounts and Budget work.</p> <p>2. The Departmental Accountant in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>(The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13	14
Not applicable	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment/relaxation of any provision of these recruitment rules.</p>

[F. No. A. 11016/2/AAO/2002-Ad. II/PM. II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2006

सा. का. नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज मंत्रालय में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंचायती राज मंत्रालय सवार हरकारा समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सवार हरकारा	1* (2006) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 28 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

513 GI/06-3

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : हल्के मोटरयान चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव। (i) विधिमान्य अनुज्ञप्ति जरूर होनी चाहिए (ii) हल्के मोटरयान चलाने के लिए	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए दो वर्ष और आमेलन किए जाने वालों के लिए एक वर्ष
वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से आठवीं स्तर उत्तीर्ण (ii) व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण।		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
11	12	
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा	केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभाग में, नियमित आधार पर कार्यरत, समूह 'घ' में के ऐसे कर्मचारी जो स्तंभ 8 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

- | | |
|---|----------|
| 1. अवर सचिव (स्थापना) | —अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव किसी अन्य मंत्रालय में समूह 'ग' पदों का भारसाधक | —सदस्य |
| 3. अनुभाग अधिकारी (स्थापना) | —सदस्य |

[सं. ए-12018/2/2005-पीआर/स्था.]

मुकुल चटर्जी, उप सचिव

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 2nd March, 2006

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dispatch Rider in the Ministry of Panchayati Raj, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Panchayati Raj Dispatch Rider Group 'C' Post Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Dispatch Rider	1* (2006) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-applicable	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Between 18 and 28 years (Relaxable for Government servant up to the age of 40 years in the case of general candidates and upto the age of 45 years in the case of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Union Territory of Lakshadweep). Note 2. —In the case the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential : Experience of driving light motor vehicle for at least two years. (i) must have a valid driving license, (ii) for driving light motor vehicle. Desirable : (i) 8th Standard pass from a recognized school, (ii) Pass in trade test.	No applicable	Two years for direct recruits and one year for absorptionist
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption or grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	
11	12		
By Deputation or absorption failing which by direct recruitment	Deputation/absorption from amongst the Group 'D' employees working on regular basis in Ministries or Department of the Central Government who fulfil the necessary qualifications mentioned in column 8.		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
13	14		
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Under Secretary (Establishment) —Chairman 2. Under Secretary incharge of Group 'C' posts in any other Ministry —Member 3. Section Officer (Establishment) —Member		Not applicable.	

[No. A-12018/2/2005-PR/Estt.]

MUKUL CHATTERJEE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2006

सा. का. नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंचायती राज मंत्रालय अनुसंधान अधिकारी भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान अधिकारी (पंचायती राज)	1* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	8000-275- 13500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8			9			10
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			लागू नहीं होता

5136I/06-4

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11	12
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी निकायों या अर्द्ध सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-200-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य ;</p> <p>(ii) ग्राम विकास के क्षेत्र में योजना/विकास कार्यक्रम के निष्पादन में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(घ) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए 12018/3/2005-पीआर/स्था.]

मुकुल चटर्जी, उप सचिव

New Delhi, the 2nd March, 2006

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the Ministry of Panchayati Raj, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Panchayati Raj Research Officer Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Research Officer (PR)	1* (2006) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Not applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or

or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

11

12

Deputation (including short-term contract)

Deputation (including Short-term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Organizations or Semi Government Organizations.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) having 5 years' regular service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in the parent cadre/or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :

(i) Master's Degree of a recognized University or equivalent;

(ii) Three year' experience in planning/or executing development programmes in the field or rural development.

(c) The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

(d) The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable.

Consultation with the Union Public Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC)

[No. A.12018/3/2005-PR/Estt.]

MUKUL CHATTERJEE, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2006

सा.का.नि. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में संपदा पर्यवेक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के,

(i) स्तंभ 5 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“चयन अथवा अचयन पद”;

(ii) स्तंभ 7 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“18 से 25 वर्ष के बीच;

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 30 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण 3 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।”

(iii) स्तंभ 8 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“1. आवश्यक अर्हताएं

- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी (सिविल या विद्युत) में डिग्री तथा बड़े भवनों के अनुरक्षण और व्यवस्था कार्य में तीन वर्ष का अनुभव; या
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी (सिविल या इलैक्ट्रीकल) में डिप्लोमा तथा बड़े भवनों के अनुरक्षण और व्यवस्था कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

2. वांछनीय

वातानुकूलकों, जल शीतित्रों, अग्नि-शमन उपकरणों के कार्यकरण और उनके अनुरक्षण का अनुभव”;

(iv) स्तंभ 10 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष”;

(v) स्तंभ 11 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“प्रतिनिधुक्ति द्वारा जिसके असफल होने पर सीधे भर्ती द्वारा”;

51364/06-5

(vi) स्तंभ 12 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-125-7000 रु. के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं और अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)”

[फा. सं. ए-12018/1/05-प्रशा. I (ख)]

सुमन के. अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र सा. का. नि. 6 तारीख 5 जनवरी, 2002 को प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्पूर्वी संशोधन सा. का. नि. 202 तारीख 17 मई, 2003 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 2nd March, 2006

G. S. R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Science and Technology (Group ‘C’ and ‘D’ posts) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Science and Technology (Group ‘C’ and ‘D’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Science and Technology (Group ‘C’ and ‘D’ posts) Recruitment Rules, 2001, in serial number 2 relating to the post of Estate Supervisor,

(i) in column 5, for the heading the following heading shall be substituted, namely :—

“Whether selection post or non-selection post”;

(ii) for the entry under column 7, the following entries shall be substituted, namely :—

“Between 18 to 25 years

Note 1 :—Relaxable upto 30 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

Note 2 :—The crucial date for determination of the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 3 :—In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date by which Employment Exchange is asked to submit names.”

(iii) for the entry under column 8, the following entries shall be substituted namely :—

“1. Essential Qualifications

- (a) Degree in Engineering (Civil or Electrical) of a recognised University with three years experience in the maintenance and upkeep of big buildings; or
- (b) Diploma in Engineering (Civil or Electrical) of a recognised Institute with five years experience in the maintenance and upkeep of big buildings.

Note :—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

2. Desirable

Experience in working of air-conditioners, water coolers, firefighting equipments and their maintenance.”

(iv) for the entry under column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

“Two years for direct recruits”;

(v) for the entry under column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

“By deputation failing which by direct recruitment”;

(vi) for the entries under column 12, the following entries shall be substituted, namely :—

“DEPUTATION

Officials of the Central Government :

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
 - (ii) with 3 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-125-7000 in the parent cadre/department; and
 - (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column 8.
- (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Maximum age limit for the appointment on deputation shall not exceed fifty-six as on the closing date of receipt of applications).”

[F. No. A-12018/1/05-Admn. I (B)]

SUMAN K. AGRAWAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 6 dated 5th January, 2002 and subsequently amended vide number GSR 202 dated 17th May, 2003.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 55.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 22) की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 2(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय “सार्वजनिक प्राधिकारी” नामतः रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में संलग्न अनुबंध में यथा उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा केन्द्रीय सहायक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में नम्बोदिष्ट करता है।

2. श्री के. के. मित्तल, महानिदेशक/संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ अधिकारी होंगे।

[सं. डीजीईएण्डटी-जैड-16014/13/2005-प्रसा-2]

सुनिल माथुर, निदेशक

अनुबंध

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधीनस्थ 2005 के तहत नामोद्दिष्ट केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की सूची :—

क्रम संख्या	कार्यालय/ संस्थान का नाम	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स संख्या	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम	सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डी.जी.ई. टी., (मुख्यालय)	श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली	011-23715008 011-23001360	011-23711007	श्री सुनील माथुर, निदेशक	श्री आर. के. अहलुवालिया, अवर सचिव
2.	एन. एस. सैल गुहाटी	21 बी, बनी नगर, फर्स्ट बाए लेन, रीहाबरी, गुहाटी	0361- 2521351/2132030		श्री डी.एन. विश्वास, उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)	श्री के. एल. कुली, उप निदेशक प्रशिक्षण
3.	केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	ई एन ब्लॉक, सैक्टर-5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091 (प. बंगाल)	033-23671005 033-23673603	033- 23678358	श्री जी. भौमिक, निदेशक	श्री एम.एम. गेरा, उप निदेशक प्रशिक्षण
4.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान,	सी.टी.आई. कैम्पस, गिण्डी औद्योगिक इस्टेट, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)	044- 22345256/ 22345257/ 22310430/ 22342791	033- 22342791	श्री टी.सी. सरवनबावा, निदेशक	श्री भारथ विकरु, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
5.	फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान	तुमकुर रोड, बंगलौर-560022 (कर्नाटक)	080-23371209, 23571335	080- 3370641	श्री एच.ए. केशवामूर्ति, निदेशक	श्री एच.डी. लहिरी, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
6.	निदेशक, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान	राजकीय पोलिटेक्निक बिल्डिंग, आदित्यपुर, जमशेदपुर-831001 (झारखंड)	0657- 2407434/ 2407731	0657- 2407731	श्री के. पी. चट्टोपाध्याय, निदेशक	श्री संजय कांत उप निदेशक प्रशिक्षण
7.	शीर्षस्थ उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान	एफ टी आई कैम्पस, तुमकुर रोड, बंगलौर-560022 (कर्नाटक)	080-23378335, 23379178	080- 23374248	श्री बी. आर. मुद्दापुर, निदेशक	श्री एस. जे. अमालन, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
8.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	विधानगर, हैदराबाद-500007 (आंध्र प्रदेश)	040-27428058, 27428606	040- 27428606	श्री वी. एम. राव, निदेशक	श्री वी. वी. सुब्बाराव, उप निदेशक प्रशिक्षण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	बी एन पूर्व मार्ग सायन मुम्बई-400022 (महाराष्ट्र)	022-25221560	022-25221560	श्री वी.एम. गिल्डयाल, डा० आई.के. जैन, निदेशक	उप निदेशक प्रशिक्षण
10.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	गिल रोड, लुधियाना-141003 (पंजाब)	0161-2490187	0161-2490187	श्री अशोक कुमार, निदेशक	श्री बी. प्रसाद, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
11.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	सी टी आई कैम्पस, गिण्डी औद्योगिक इस्टेट, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)	044-22341460	044-22341460,	श्री टी. ए. जोसफ, निदेशक	श्री एम. श्रीधर, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
12.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	उद्योग नगर, कानपुर-208022 (उ.प्र.)	0512-2296273	0512-2296273	श्री वी. एस. गौड़, निदेशक	श्री एस. पी. श्रीवास्तव, उप निदेशक प्रशिक्षण
13.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	दास नगर, कोलकाता-711005 (प. बंगाल)	033-26531225	033-26531257	श्री जी. भौमिक, निदेशक	श्री आर. एन. बंदोपाध्याय, उप निदेशक प्रशिक्षण
14.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान,	इलैक्ट्रानिक एवं प्रोसेस, इन्स्ट्रुमेंटेशन, रामानतापुर, उप्पल रोड, हैदराबाद-500013 (आन्ध्र प्रदेश)	040-27037266/ 27038982	040-27038982	श्री एच. सोमासुन्दरम, निदेशक	श्री आर. एल. सिंह, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
15.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक एवं प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन	ए टी आई-ई पी आई कैम्पस, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून-248171 (उत्तरांचल)	0135-2629310, 2723804	0135-2629310	श्री अशोक कुमार, निदेशक, ग्राण्ड साऊदर्न ट्रंक रोड, औद्योगिक इस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)	श्री पी. एन. यादव, उप निदेशक प्रशिक्षण
16.	केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान	ग्राण्ड साऊदर्न ट्रंक रोड, औद्योगिक इस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)	044-22341593, 22335437	044-22341460	श्री आर. सिन्धिल कुमार, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण/प्रधानाचार्य	श्री एम.एस. बालाकृष्णन, उप निदेशक प्रशिक्षण/उप प्रधानाचार्य

5136I/06-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय	आर डी ए टी, एम एस ओ भवन, ई-विंग, पहली मंजिल, डी एफ ब्लॉक, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता- 700064 (पं. बंगाल)	033-23340364	033- 23678358	श्री के. पी. चट्टोपाध्याय, क्षेत्रीय निदेशक	रिक्त उप निदेशक प्रशिक्षण
18.	क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय,	आर डी ए टी, साऊदर्न क्षेत्र, गिंडी, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)	044-22343191		श्री टी. ए. जोसफ, निदेशक	श्री एस. शांतिमालन, उप निदेशक प्रशिक्षण
19.	क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय एक्सटेंशन काउंटर	गवर्नमेंट आई टी आई प्रिमाइसिस, एच एम टी कालोनी, पोस्ट ऑफिस कलामासेरी, इरनाकुलम, डिस्ट्रिक्ट केरल- 683503			श्री टी. ए. जोसफ, निदेशक	श्री एम. शाजहान, उप निदेशक, प्रशिक्षण
20.	क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय	आर डी ए टी, तीसरी मंजिल, ए-विंग, नया सीजीओ भवन, एन. एच. 4, फरीदाबाद- 121001 (हरियाणा)	95129-2413890	95129- 2421973	श्री देश राज, क्षेत्रीय निदेशक	श्री वाई. के. बागिया, उप निदेशक, प्रशिक्षण
21.	क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय	आर डी ए टी, ए.टी.आई. ई.पी.आई. कैम्पस, रामानंतापुर, हैदराबाद-500013 (आंध्र प्रदेश)	040- 27038264	040- 27038264	श्री एच. सोमासुन्दरम, क्षेत्रीय निदेशक	श्री पी. साई. बाबा, उप निदेशक, प्रशिक्षण
22.	क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय	आर डी ए टी, उद्योग नगर, कानपुर-208022 (उ. प्र.)	0512- 2296088		श्री वी. गौड़, क्षेत्रीय निदेशक	श्री अनिल कुमार, उप निदेशक प्रशिक्षण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय	(पश्चिमी क्षेत्र) आरडीएटी, बी एन पूरव मार्ग, सायन, ट्राम्बे रोड, मुम्बई-400022 (महाराष्ट्र)	022- 25222519	022- 25221560	श्री ए. एस. के.सई, क्षेत्रीय निदेशक	श्री एम. आर. गजरे, उप निदेशक, प्रशिक्षण
24.	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	गोडाउन काम्पलैक्स, बेपोर, कालीकट, कोझीकोड, कालीकट- 673015 (केरल)	0496-2742500		श्री टी.ए. जोसफ, क्षेत्रीय निदेशक	श्री बी.ए. अहमद, उप निदेशक, प्रशिक्षण
25.	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	चौध्वार, कटक-754025 (उड़ीसा)	0671-26922317		श्री के.पी. चट्टोपाध्याय, क्षेत्रीय निदेशक	श्री चन्द्रशेखर, उप निदेशक, प्रशिक्षण
26.	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	आई टी आई कैम्पस, जोधपुर-342003 (राजस्थान)	0291-2740798		श्री ए.एस. के.सई, क्षेत्रीय निदेशक	श्री जे.पी. मीना, उप निदेशक, प्रशिक्षण
27.	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	नैनीताल रोड, हल्द्वानी, पो.आ. काठगोदाम, नैनीताल-263126 (उत्तरांचल)	05946-221035	05946- 225951	श्री देशराज, क्षेत्रीय निदेशक	श्री ए.एस. गरण्थाल, उप निदेशक, प्रशिक्षण
28.	राष्ट्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	डी-1, सैक्टर-1, गौतमबुद्ध नगर, नौएडा-201301 (उ.प्र.)	95120-2523303	95120- 2523303	सुश्री विदेश्वरी बी., संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण/प्रधानाचार्य	श्रीमती कृष्णा गरगज, सहायक उप निदेशक, प्रशिक्षण
29.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	आई टी आई कैम्पस, तरसल्ली रोड, बडोदरा-390009 (गुजरात)	0265-2646678		श्री ए.एस. के.सई, क्षेत्रीय निदेशक	श्रीमती जे.जी. शुक्ला, प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रधानाचार्य प्रभारी
30.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	ठंडी सड़क, नई सब्जी मंडी, हिसार-125001 (हरियाणा)	01662-225840		सुश्री विदेश्वरी बी. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/प्रधानाचार्य	श्री के. मनी, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
31.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	कोजीकोट्टम, तिरुअनंतपुरम- 695582 (केरल)	0471-2418391		श्री टी.ए. जोसफ, क्षेत्रीय निदेशक	श्री मारवेल दास, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
32.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	होसुर रोड, बंगलौर-560029 (कर्नाटक)	080-26561955/ 26566348		श्री टी.ए. जोसफ, क्षेत्रीय निदेशक	श्री बी.एस. रवि प्रसाद, उप निदेशक, प्रशिक्षण
33.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	काशीनाथ धुरु लेन, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुम्बई-400028 (महाराष्ट्र)	022-24223962	022- 24223962	श्री ए.एस. के.सई, क्षेत्रीय निदेशक	श्री अरुण जी. जोशी, उप निदेशक, प्रशिक्षण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	नन्दा नगर, आई टी आई कैम्पस, इंदौर-452003 (म.प्र.)	0731-2550105		सुश्री विदेश्वरी बी. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/प्रधानाचार्य	श्रीमती शशी माथुर, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
35.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	झालाना डुंगरी, के.बी. नं.-3 के सामने, जयपुर-302004 (राजस्थान)	0141-2702430	0141- 2702430	सुश्री विदेश्वरी बी., संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण/प्रधानाचार्य	श्री जे.आर. शर्मा, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
36.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	डाकोपग्री, पश्चिम गारो हिल्स, तुश-794001 (मेघालय)	03651-232393		श्री के.पी. चट्टोपाध्याय, श्री एस.एस. काम्बले, क्षेत्रीय निदेशक	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
37.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	नम्बर-6 नई कटरा रोड, इलाहाबाद-211002 (उ.प्र.)	0532-640783		श्री बी.एस. गौर, क्षेत्रीय निदेशक	श्री बी.के. दूबे, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
38.	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	गौरैयाहाट रोड, कोलकाता-700019 (प. बंगाल)	033-24405479		श्री के.पी. चट्टोपाध्याय, श्री अशोक राही, क्षेत्रीय निदेशक	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
39.	केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूसा	नई दिल्ली-110012	011-25849472/ 25842326		डा. बी.के. मल्होत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री अश्वनी कुमार, अनुसंधान अधिकारी
40.	विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र	एटीआई कैम्पस, विद्यासागर, हैदराबाद-500007 (आन्ध्र प्रदेश)	040-276124381	040- 27614606	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	डा. कृष्णचन्द्र, उप निदेशक (पुनर्वास)
41.	विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र	रेहाबरी, गुवाहाटी-781008 (असम)	0361-2607858	0361 2607858	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री आर. लक्ष्मणा स्वामी, सहायक निदेशक (पुनर्वास)
42.	विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र	ए-84, गौंधी विहार, पुलिस कालोनी, अनिसाबाद, पटना-800001 (बिहार)	0612-2250213		श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री एम. रामाकृष्णन सहायक निदेशक (पुनर्वास)
43.	विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र Vocational Rehabilitation Centre for P/H	व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, प्लॉट संख्या 9, 10, 11, विकास मार्ग, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092	011-22372704		श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री एम.के. रूस्तोगी सहायक निदेशक (पुनर्वास)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	आईटीआई कैम्पस, कुबेर नगर, अहमदाबाद-382340 (गुजरात)	079-22811629	079- 22822486	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	उप निदेशक (पुनर्वास) (रिक्त)
45.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	नालनचिरा, तिरूवनन्तपुरम- 695015 (केरल)	0471-2531175/ 2530371		श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री एस.जी. मोहिद्दीन
46.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	22, होसुर रोड, बंगलौर-560029 (कर्नाटक)	080-26564995		श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्रीमती पी. संदया श्री, पुनर्वास अधिकारी
47.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	एटीआई कैम्पस, वी एन पुरव मार्ग, सायन, मुम्बई-400022 (महाराष्ट्र)	022-25221707	022- 25221560	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री एस.जैड.एच. जैदी, उप निदेशक, (पुनर्वास)
48.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	कारपोरेशन, नई मार्किट, मोटर स्टैंड के पास दाना गोदाम, नैपियर टाउन, जबलपुर-482001 (म.प्र.)	0761-2405581	0761- 2390169	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री जी.के. सोकल, सहायक निदेशक (पुनर्वास)
49.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	एटी आई कैम्पस, गिल रोड, लुधियाना	0161-2490883 Fax 0161- 2491871	0674- 2550800	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री सुखदेव सिंह, उप निदेशक प्रशिक्षण
50.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	4-स-23, सूर्य पथ, जवाहर नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)	0141-2652232	0141- 2200072	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री जे.आर. शर्मा, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
51.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	सी टी आई कैम्पस, गिंडी, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)	044-22341534	044- 22341211	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री जैन सिंह, उप निदेशक, प्रशिक्षण
52.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	अभय नगर, अगरतल्ला-799005 (त्रिपुरा)	0381-2325632		श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री पी. के. चेरियन, मनोविज्ञानी
53.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	ए टी आई कैम्पस, उद्योग नगर, गोविन्द नगर के पास, कानपुर-208022 (उत्तर प्रदेश)	0512-2296005	0512- 2296273	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री एस.पी. उपाध्याय, पुनर्वास अधिकारी
54.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	38, बादलराय लेन, बिलाघटा, कोलकाता-700010	033-23508146	033- 23378358	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्रीमती चन्द्रीका रानी, सहायक निदेशक (पुनर्वास)

5136I/06-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	महावीर इंडस्ट्रियल स्टेट, 0265-2782857 बहुचरानी रोड, करेली बाग, वडोदरा-390018 (गुजरात)		0265- 2430510/ 2430362	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री के.के. भट्ट, सहायक निदेशक (पुनर्वास)
56.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	एस आई आर डी कैम्पस, यूनिट-I/III, भुवनेश्वर-751012 (उड़ीसा)	0674-2560375	0674- 2550800	श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री आर.के. शर्मा, सहायक निदेशक (पुनर्वास) इन्चार्ज
57.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	जिला रोजगार सेवा, मेन बाजार, उन्ना (हि.प्र.)			श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	डा. कृष्ण चन्द्र शर्मा, उप निदेशक (पुनर्वास)
58.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	पोस्ट आफिस के नजदीक, पान्डेचेरी			श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री जैन सिंह, उप निदेशक (पुनर्वास)
59.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	के. जी. पोलोकिल्निक कैम्पस गोजी बाग, पोस्ट आफिस जवाहर नगर, श्रीनगर-190008	0194-2310144- Ext.117		श्री पी.के.रे., उप महानिदेशक (रोजगार)	श्री एस.जैड.एच. जैदी, उप निदेशक (पुनर्वास)
60.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	सिकुलपुक्युम, अजवाल-796001 (मिजोरम)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री जे.एल. शास्त्री, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
61.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	आई टी आई कैम्पस, बंगलौर-560029 (कर्नाटक)		080- 22722225	डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री एम. रामना बाबू, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
62.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	पुर्तो भवन, साल्ट लेक, कोलकाता (प. बंगाल)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्रीमती इमिस्ता मित्रा, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
63.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	पुराना आई टी आई कैम्पस, रेहाबरी, गुवाहाटी-781008 (असम)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री कश उदय सिंह, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
64.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	वी.आर.सी. परिसर, 9-10-11, विकास मार्ग एक्सटेंसन, कडकडूमा, दिल्ली-110092			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्रीमती नूतन पांडे, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
65.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	ए टी आई कैम्पस, विद्यानगर, हैदराबाद-500007 (आन्ध्र प्रदेश)		040- 27408555	डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री एस. रामना बाबू, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	तमिलनाडु स्लम किलयरेन्स, बोर्ड बिल्डिंग, 56, सान्तोम हाई रोड, कुइल तोट्टम, चेन्नई-600004 (तमिलनाडु)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री पी.के. मोहन्ती, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
67.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	2/2396 आई, करूनगानूर जंक्शन पाटम, तिरुवनन्तपुरम-695004 (केरल)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री वी.एस. नायर, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
68.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	रोजगार कार्यालय काम्पलैक्स, लम्फलपेट, इम्फाल (पश्चिम)- 795001 (मणिपुर)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री कश उदय सिंह, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
69.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	34-डी/सी, गांधी नगर, जम्मू-180004			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री जी.बी. डागरे, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
70.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	जिला प्रशासनिक कम्पलैक्स, पहली मंजिल, कमरा नं. 124, जालंधर-144001 (पंजाब)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री वी.के. विज, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
71.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	बाराक नं. 4, यूनिट नं. 5, भुवनेश्वर-751001 (उड़ीसा)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री एच.एम. मिश्रा, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
72.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	जिला रोजगार कार्यालय, चांदमारी, कोहिमा-797001 (नागालैंड)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री के. मफने, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
73.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	प्रादेशिक रोजगार कार्यालय भवन, जी टी रोड, कानपुर-208002 (उ.प्र.)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री आईनुल हक, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	दूसरी मंजिल, मदन महल चौक, ब्लाक-2, जबलपुर डेवलपमेंट अथारिटी, कम्पलैक्स, जबलपुर-482002 (म.प्र.)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री एस.पी. भट्टाचार्यजी, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
75.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	रोजगार कार्यालय भवन, जलेबी चौक, जयपुर-302002 (राजस्थान)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री बच्चू सिंह, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
76.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	कमरा नं. 106-107, ए वी टी एस बिल्डिंग, आई टी आई कैम्पस, मजूरागेट, सुरत-395002 (गुजरात)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री पी.एस. पचपौर, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
77.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	पहली मंजिल, भारत मार्केट कम्पलैक्स, गली संख्या 6, जवाहर नगर, हिसार-125001 (हरियाणा)			डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री एम.आर. सिंघवानी, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
78.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	फ्लैट नं. 194, मिश्रा भवन, सीमेंट रोड, नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)	0712-2521468		डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री एन.आई. एलक्सैडर, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
79.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय भवन, मण्डी-175001 (हिमाचल प्रदेश)	01905-235522		डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री राजमुंजी, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
80.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	एच ब्लॉक, प्रथम मंजिल, जवान भवन सह-सैनिक बाजार, मेन रोड, राँची- 834001 (झारखंड)	0651-2330482		डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री महेन्द्र राम, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
81.	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र	रोजगार कार्यालय भवन, जोवाई, जयन्तीया हिल्स (मेघालय)	03652-20623		डा. वी.के. मलहोत्रा, निदेशक (रोजगार)	श्री जे.एल. शास्त्री, उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 28th February, 2006

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred under Section 5(1) read with Section 2(c) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the Central Government in the Ministry of Labour & Employment designate the Officers as Central Public Information Officers and Central Assistant Public Information Officers as mentioned in the Annexure in respect of the 'public authority' namely, the Directorate General of Employment & Training (Head Quarters) and its Subordinate Offices.

2. Shri K. K. Mittal, Director General/Joint Secretary to the Govt. of India in the Ministry of Labour & Employment shall be the senior officer for the purpose of Section 19(1) of the said Act.

[F. No. DGE&T-Z-16014/13/2005-Adm.II]

SUNIL MATHUR, Director

ANNEXURE

**List of CPIOs and CAPIOS designated under the Right to Information Act, 2005 for
DGE&T and its Subordinate Offices**

Sl. No.	Name of the Office/Institutes	Address	Phone Number	Fax Number	Name of CPIO	Name of CAPIO
1	3	4	5	6	7	8
1	DGE&T(Hqrs.)	Sharm Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001	011-23715008 011-23001360	011-23711007	Shri Sunil Mathur, Director	Shri R. K. Ahluwalia, Under Secretary
2	NES Cell Guwahati	21-B, Baninagar, 1st Bye Lane, Rehabari, Guwahati	0361-2521351/ 2132030		Shri D. N. Biswas, Deputy Director General (Training)	Shri K.L. Kuli, Dy. Director of Training
3	Central Staff Training & Research Institute	ENBlock, Sector 5, Salt Lake City Kolkata-700091	033-23671005 033-23673603	033-23678358	Shri G. Bhowmik, Director	Shri M. M. Gera, Deputy Director of Training
4	National Instructional, Media Institute	C.T.I. Campus, Industrial Estate, Guindy, Chennai. 600032	044-22345256/ 22345257/ 22310430/ 22342791	033-22342791	Shri T. C. Saravanbava, Director	Shri V. Bharath Vikru, Joint Director of Training
5	Forman Training Institute	Tumkur Road Bangalore-560022	080-23371209, 23571335	080-3370641	Shri H.A. Keshvamurthy Director	Shri S. D. Lahiri, Joint Director of Training
6	Forman Training Institute	Jamshedpur-832109	0657-2407434/ 2407731	0657-2407731	Shri K.P. Chattopadhyay, Director	Shri Sanjay Kant, Deputy Director of Training
7	Apex Hi-Tech Institute	FTI Campus Tumkur, Road, Bangalore-560022	080-23378335/ 23379178	080-23374248	Shri B. R. Muddapur, Director	Shri S. J. Amalan, Joint Director of Training
8	Advanced Training Institute	Vidyanagar, Hyderabad-500007	040-27428058, 27428606	040-27428606	Shri V. M. Rao, Director	Shri V. V. Subba Rao, Deputy Director of Training

51361/06-8

1	3	4	5	6	7	8
9. Advanced Training Institute	V.N. Purav Marg, Sion, Mumbai-400022	022-25221560	022-25221560	Shri V. M. Ghildayal, Director	Dr. I. K. Jain, Dy. Director of Training	
10. Advanced Training Institute	Gill Road, Ludhiana-141003	0161-2490187	0161-2490187	Shri Ashok Kumar, Director	Shri B. Prasad, Joint Director of Training	
11. Advanced Training Institute	CTI Campus Guindy, Industrial Estate, Tamilnadu, Chennai-600032	044-22341460	044-22341460	Shri T. A. Joseph, Director	Shri M. Sridhar, Joint Director of Training	
12. Advanced Training Institute	Udyog Nagar, Kanpur-208022	0512-2296273	0512-2296273	Shri V.S. Gaur, Director	Shri S. P. Srivastava, Deputy Director of Training	
13. Advanced Training Institute	Dasnagar, Howrah-711005	033-26531225	033-26531257	Shri G. Bhowmik, Director	Shri R.N. Bandopadhyaya, Deputy Director of Training	
14. Advanced Training Institute for Electronics & Process Instrumentation	Ramanthapur, Uppal Road, Hyderabad-500013	040-27037266/27038982	040-27038982	Shri H. Somasundaram, Director	Shri R. L. Singh, Joint Director of Training	
15. Advanced Training Institute for Electronics & Process Instrumentation	ATIEPI Campus, Green Park Niranjapur, Dehradun Dehradun-248171	0135-2629310, 2723804	0135-2629310	Shri Ashok Kumar, Director	Shri P. N. Yadav, Deputy Director of Training	
16. Central Training Institute of Instructors	Grand Southern Trunk Road, Industrial Estate Guindy, Chennai-600032	044-22341593, 22335437	044-22341460	Shri R. Senthil Kumar, Joint Director of Training/Principal	Shri M. S. Balakrishnan, Deputy Director of Training/Vice Principal	
17. Regional Directorate of Apprenticeship Training	RDAT, M.S.O. Building E. Wing, 1st Floor, D.F. Block, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064	033-23340364	033-23678358	Shri K.P. Chattopadhyay, Regional Director	Deputy Director of Training (Vacant)	
18. Regional Directorate of Apprenticeship Training	RDAT, Southern Region, Guindy, Chennai-600032	044-22343191		Shri T. A. Joseph, Director	Shri S. Shantimalan, Deputy Director of Training	
19. Regional Directorate of Apprenticeship Training-Extension Counter	Govt. ITI Premises, HMT Colony, Post Office, Kalamassery, Ernakulam Distt., Kerala-683503			Shri T. A. Joseph, Director	Shri M. Shajahan, Deputy Director of Training	
20. Regional Directorate of Apprenticeship Training	RDAT, 3rd Floor, A-Wing, New CGO Building, NH-IV, Faridabad-121001	95129-2413890	95129-2421973	Shri Des Raj, Director	Shri Y. K. Bangia, Deputy Director of Training	

1	3	4	5	6	7	8
21.	Regional Directorate of Apprenticeship Training	RDAT, ATI-EPI, Campus, Ramanthapur, Hyderabad, Hyderabad (Ranga-Reddy)-500013	040-27038264	040-27038264	Shri H. Somasundaram, Regional Director	Shri P. Sai Baba, Deputy Director of Training
22.	Regional Directorate of Apprenticeship Training	RDAT, Udyog Nagar, Kanpur-208022	0512-2296088		Shri V. S. Guar, Regional Director	Shri Anil Kumar, Deputy Director of Training
23.	Regional Directorate of Apprenticeship Training	RDAT, V.N. Purav Marg Sion Trombay Road, Mumbai-400022	022-25222519	022-25221560	Shri A.S. Kesai, Regional Director	Shri M.R. Gajre, Deputy Director of Training
24.	Model Industrial Training Institute	Post-Govindapuram, Calicut Kozhikode (Calicut)-673015	0496-2742500		Shri T.A. Joseph, Director	Shri B.A. Ahmed, Deputy Director of Training
25.	Model Industrial Training Institute	Chowdhar Cuttack-754025	0671-26922317		Shri K.P. Chattopadhyay, RDAT	Shri C. Chandraskhar, Deputy Director of Training
26.	Model Industrial Training Institute	ITI Campus Jodhpur-342003	0291-2740798		Shri A.S. Kesai, RDAT	Shri J.P. Meena, Deputy Director of Training
27.	Model Industrial Training Institute	Nainital Road, Haldwani, P. O. Kathgodam, Nainital-263126	05946-221035	05946-225951	Shri Des Raj, RDAT	Shri N.S. Garbyal, Asstt. Director of Training
28.	National Vocational Training Institute for Women	Sector 1 Noida Gautam Budha Nagar, NOIDA-201301	95120-2523303	95120-2523303	Ms. Vidyeshwari V., DT/Principal	Smt. Krishna Gargaj, Assistant Director of Training
29.	Regional Vocational Training Institute for Women	ITI Campus Tarasali Road, Vadodara-390009	0265-2646678		Shri A.S. Kesai, RDAT, Mumbai	Smt. J. G. Shukla, TO & Principal In-Charge
30.	Regional Vocational Training Institute for Women	Thandi Sarak, New Subzi Mandi Hissar-125001	01662-225840		Ms. Vidyeshwari V., Jt. DT./Principal	Shri K. Mani, Assistant Director of Training
31.	Regional Vocational Training Institute for Women	Kazhakuttom Thiruvananthapuram-695582	0471-2418391		Shri T.A. Joseph, RDAT, Chennai	Shri P. Marvel Dass, Assistant Director of Training
32.	Regional Vocational Training Institute for Women	Hosur Road Bangalore-560029	080-26561955/ 26566348		Shri T.A. Joseph, RDAT, Chennai	Shri B. S. Ravj Prasad, Deputy Director of Training
33.	Regional Vocational Training Institute for Women	Kashinath Dhuru Lane Veer Savarkar Marg, Dadar (West) Mumbai-400028	022-24223962	022-24223962	Shri A.S. Kesai, RDAT, Mumbai	Shri Arun G. Joshi, Deputy Director of Training

1	2	3	4	5	6	7
34.	Regional Vocational Training Institute for Women	Nanda Nagar, ITI Campus Indore-452003	0731-2550105		Ms. Vidyeshwari V., JDT./Principal, NVTI(W), NOIDA	Smt. Shashi Mathur Assistant Director of Training
35.	Regional Vocational Training Institute for Women	RVTI for Women Jhalana, Doongri Opposite K. V. No. 3, Jaipur-302004	0141-2702430	0141-2702430	Ms. Vidyeshwari V., JDT./Principal, NVTI(W), NOIDA	Shri. J. R. Sharma Assistant Director of Training
36.	Regional Vocational Training Institute for Women	Dakopgre, Tura, West Garo Hills, Meghalaya-794101	03651-232393		Shri K.P. Chattopadhyay, RDAT, Kolkata	Shri. S. S. Kamble, Assistant Director of Training
37.	Regional Vocational Training Institute for Women	No. 5, New Katra Road, Allahabad-211002	0532-640783		Shri V.S. Gaur RDAT, Kanpur	Shri B.K. Dubey Assistant Director of Training
38.	Regional Vocational Training Institute for Women	10 & 10/1, Gariahat Road, Kolkata-700019	033-24405479		Shri K.P. Chattopadhyay, RDAT, Kolkata	Shri Ashok Rarhi, Assistant Director of Training
EMPLOYMENT:						
39.	Central Institute for Research, Training and Employment Services	Pusa, New Delhi	011-25849472/25842326		Dr. V. K. Malhotra Director of Employment Exchanges	Shri Ashwani Kumar, Research Officer
40.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	ATI Campus Vidya Nagar, Hyderabad-500007	040-276124381	040-27614606	Shri P. K. Ray Deputy Director General (Employment)	Dr. Krishna Chandra Deputy Director (Rehabilitation)
41.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	Rehabari, Barpeta, Guwahati-781008	0361-2607858	0361-2607858	Shri P. K. Ray Deputy Director General (Employment)	Shri R. Lakshmana Swamy, Assistant Director (Rehabilitation)
42.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	A/84, Plot I, Gandhi Vihar, Police Colony, Anisabad, Patna-2	0612-2250213		Shri P. K. Ray Deputy Director General (Employment)	Shri M. Ramakrishnan Assistant Director (Rehabilitation)
43.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	Plat No. 9-11, Karkarduma, Vikas Marg, East Delhi-110092	011-22372704		Shri P. K. Ray Deputy Director General (Employment)	Shri M. K. Rastogi, Assistant Director (Rehabilitation)
44.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	ITI Campus, Kuber Nagar, Ahmedabad-382340	079-22811629	079-22822486	Shri P. K. Ray Deputy Director General (Employment)	Deputy Director (Rehabilitation) (Vacant)
45.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	Nalanchitra Thiruvananthapuram-695015	0471-2531175/2530371		Shri P. K. Ray, Deputy Director General, (Employment)	Shri S.G. Mohiddin, Deputy Director (Rehabilitation)

1	2	3	4	5	6	7
46.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	22, Hosur Road, Bangalore-560029	080-26564995		Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Smt. Sandya P. Shere, Rehabilitation Officer
47.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	ATI Campus Sion, Chunabhatti Road, Mumbai-400022	022-25221707	022-25221560	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri S.Z. H. Zaidi, Deputy Director (Rehabilitation)
48.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	Dana Godam, Napier Town, Jabalpur-482001	0761-2405581	0761-2390169	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri G.K. Sokal, Assistant Director (Rehabilitation)
49.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	ATI Campus Gill Road, Ludhiana-141003	061-2490883 Fax 0161-2491871	0674-2550800	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri Sukhdev Singh, Deputy Director of Training
50.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	4-Sa-23, Suryapath, Jawahar Nagar, Jaipur-302004	0141-2652232	0141-2200072	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri J.R. Sharma, Assistant Director of Training
51.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	CTI Campus Guindy Chennai-600032	044-22341534	044-22341211	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri Jain Singh, Deputy Director (Rehabilitation)
52.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	Abhay Nagar, Agartala-799005	0381-2325632		Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri P.K. Cherrian, Psychologist
53.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	A.T.I. Campus Udyog Nagar, Kanpur-208022	0512-2296005	0512-2296273	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri S.P. Upadhyaya, Rehabilitation Officer
54.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	38, Badal Roy Lane Beliaghata Kolkata-700010	033-23508146	033-23378358	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri P. Chandrika Rani, Assistant Director (Rehabilitation)
55.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	Pensionpura, Vadodara-390018	0265-2782857	0265-2430510/ 2430362	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri K.K. Bhatt, Assistant Director (Rehabilitation)
56.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	SIRD Campus, Unit VIII, Bhubaneswar-751001 (Orissa)	0674-2560375	0674-2550800	Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri R.K. Sharma, Assistant Director (Rehabilitation) I/C

513 GI/06-9

1	2	3	4	5	6	7
57.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	C/o Distt. Employment Exchange Main Bazar, Una (H.P)			Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Dr. Krishna Chandra, Deputy Director (Rehabilitation)
58.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	Near Post Office, Pondicherry			Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri Jain Singh, Deputy Director (Rehabilitation)
59.	Vocational Rehabilitation Centre for P/H	K. G. Polytechnic Campus, Gogji Bagh, Post Office : Jawahar Nagar, Srinagar-190008	0194-2310144 Ext. 117		Shri P. K. Ray, Deputy Director General (Employment)	Shri S.Z.H. Zaidi, Deputy Director (Rehabilitation)
60.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Skulpuikwn, Aizwal-796001	0272-22734		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri J.L. Shashtri, Sub-Regional Employment Officer
61.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	1st Floor, ITI Campus, Dairy Circle, Bangalore-560029 (Karnataka)	080-26636192	080-22722225	Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri M. Ramanna Babu, Sub-Regional Employment Officer
62.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Salt Lake, Purta Bhawan, Room No. 15, Kolkata-700091	033-23372003		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Smt. Ipsita Mitra, Sub-Regional Employment Officer
63.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Rchabari (Old ITI Campus), Guwahati-781008	0361-2521351		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri Ksh. Uday Singh, Sub-Regional Employment Officer
64.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	VRC Building, 9-10-11, Main Vikas Marg Extension, (Near Shakti Mukund Hospital), Karkardooma, Delhi-110092	011-22372705		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Smt. Nutan Pandey, Sub-Regional Employment Officer
65.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	ATI Campus, Vidyanagar, Hyderabad-500007 (Andhra Pradesh)	040-27408555	040-27408555	Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri M. Ramanna Babu, Sub-Regional Employment Officer

1	2	3	4	5	6	7
66.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Tamil Nadu Shum Clearance Board Building, 3rd Floor, 140/56, Kuil Thottam Santhome High Road, Chennai-600004 (Tamil Nadu)	044-24615112		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri P.K. Mohanty, Sub-Regional Employment Officer
67.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	TC-II/2396 (I), Pattom, Thiruvananthapuram-695004 (Kerala)	0471-2448302		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri V.S. Nair, Sub-Regional Employment Officer
68.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Employment Exchange Complex, Lamphelpet, Imphal-795001 (Manipur)	0385-2414337		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri Ksh. Uday Singh, Sub-Regional Employment Officer
69.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	34-D/C, Gandhi Nagar, Jammu-180004	0191-2455521		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri G.B. Dangre, Sub-Regional Employment Officer
70.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	District Administrative Complex, 1st Floor, Room No. 124, Jalandhar City-144001 (Punjab)	0181-2232839		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri S.K. Viji, Sub-Regional Employment Officer
71.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Door No. 2, Barrack No. 4, Unit-5, Bhubneshwar-751001 (Orissa)	0674-2402216		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri H.M. Mishra, Sub-Regional Employment Officer
72.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Regional Employment Office Building National Highway-39, Near NST Suraya Derie Colony, Kohima-797001 (Nagaland)	03866-2241373		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri K. Mapfuo, Sub-Regional Employment Officer
73.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Employment Exchange Campus, G.T. Road, Kanpur-208002 (Uttar Pradesh)	0512-2217445		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri Ainul Haque, Sub-Regional Employment Officer
74.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/STs	Jabalpur Development Authority Complex, Block No.-2, IInd Floor, Madan Mahal Chowk, Jabalpur-482002 (Madhya Pradesh)	0761-2423987		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Sh. S.P. Bhattacharjee, Sub-Regional Employment Officer

1	2	3	4	5	6	7
75.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum- Guidance Centre for SC/STs	Employment Exchange Building, Room No. 7, Jalebi Chowk, Jaipur-302002 (Rajasthan)	0141-2618775		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri Bachchoo Singh Sub-Regional Employment Officer
76.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum- Guidance Centre for SC/STs	AVTS Building, ITI Campus, Majura Gate, Surat-395002 (Gujarat)	0261-2654699		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri P.S. Pachpor, Sub-Regional Employment Officer
77.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum- Guidance Centre for SC/STs	Bharat Market Complex, 1st Floor, Gali No. 6, Jawahar Nagar, Hissar-125001 (Haryana)	01662-235928		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri M.R. Sindwani, Sub-Regional Employment Officer
78.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum- Guidance Centre for SC/STs	Plot No. 194, Mishra Bhawan, Dharampet Extention, Cement Road, Nagpur-440010 (Maharashtra)	0712-2521468		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri N.I. Alexander, Sub-Regional Employment Officer
79.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum- Guidance Centre for SC/STs	Regional Employment Exchange Building, Mandi-175002 (Himachal Pradesh)	01905-235522		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri Raj Muni, Sub-Regional Employment Officer
80.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum- Guidance Centre for SC/STs	H-Block, 1st Floor, Jawan Bhawan-cum- Sainik Bazar, Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)	0651-2330482		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri Mahender Ram, Sub-Regional Employment Officer
81.	Sub-Regional Employment Office, Coaching-cum- Guidance Centre for SC/STs	C/o Employment Exchange Building, Jaintia Hills, Jowai (Meghalaya)	03652-20623		Dr. V.K. Malhotra, Director of Employment Exchanges	Shri J. L. Shastri Sub-Regional Employment Officer